

Affle/SE/FR/Q1/2025-26

July 28, 2025

To

<b>BSE Limited</b> <b>Phiroze Jeejeebhoy Towers,</b> <b>Dalal Street, Mumbai 400 001</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd</b> <b>Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, G</b> <b>Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),</b> <b>Mumbai - 400 051</b>
<b>Scrip Code: 542752</b>	<b>Symbol: AFFLE</b>

**Sub: Intimation of Publication of unaudited Consolidated Financial Results for the first quarter ended June 30, 2025**

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published unaudited Consolidated Financial Results for the first quarter ended June 30, 2025. Please find enclosed a copy of the advertisements published in the following newspapers on Monday, July 28, 2025.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper - All Editions) and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi Edition)

Submitted for your information and records.

Thanking you,

**Yours Faithfully,**

**For Affle 3i Limited**

*(Formerly known as Affle (India) Limited)*



**Parmita Choudhury**

**Company Secretary & Compliance officer**

**Encl: As above**

**Affle 3i Limited**

(Formerly known as Affle (India) Limited)

**Regd. Office** | A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi-110016

**Communication Office** | 8th floor, Unitech Commercial Tower - 2, Sector - 45, Gurugram - 122003, Haryana

(P) 0124-4598749 (W) [www.affle.com](http://www.affle.com); CIN: L65990DL1994PLC408172



PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE BSE SME PLATFORM IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").



(Please scan this QR Code to view the DRHP)



BharatRohan

BHARATROHAN AIRBORNE INNOVATIONS LIMITED

Our Company was incorporated as **"BharatRohan Airborne Innovations Private Limited"**, a private limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation dated June 17, 2016 issued by Deputy Registrar of Companies, Central Registration Centre. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by the Board of Directors in their meeting held on August 05, 2024 and by our Shareholders at an Annual General Meeting held on August 29, 2024 and consequently the name of our Company was changed to **"BharatRohan Airborne Innovations Limited"** and a fresh certificate of incorporation dated November 12, 2024 was issued by Central Processing Centre. The corporate identification number of our Company is U74999DL2016PLC301564. For further details on Incorporation and Registered Office of our Company, see **"History and Certain Corporate Matters"** beginning on page 256 of the Draft Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** Fourth Floor B-117, DDA Sheds Okhla Industrial Area Phase - I, South Delhi, New Delhi-110020, India.

**Corporate Office:** Office No-301 Tower 4 DLF Corporate Greens, Sector 74A, Gurgaon, Narsinghpur, Haryana 122004, India.

**Telephone:** + 91 9266109913 | **Email:** investors@bharatrohan.in | **Website:** https://bharatrohan.in/

**Contact Person:** Ms. Aakansha Singh, Company Secretary and Compliance Officer | **Corporate Identity Number:** U74999DL2016PLC301564

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY : MR. AMANDEEP PANWAR AND MR. RISHABH CHOUDHARY

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 52,99,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF BHARATROHAN AIRBORNE INNOVATIONS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "BHARATROHAN" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER, AND WILL BE ADVERTISED IN [●]. ALL EDITIONS OF ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [●], ALL EDITIONS OF HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME"), FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITE IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS, AS AMENDED.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional working days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the Book Running Lead Manager for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and amendments thereto and in compliance with Regulation 253 (1) and 253 (2) of the SEBI ICDR Regulations 2018 and as amended, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations, 2018 and as amended, states that not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹ 10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and as amended. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 400 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the regulation 247 of SEBI ICDR Regulation, 2018 as amended and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME Companies for fulfilling all additional criteria, the DRHP filed with BSE SME shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com and the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. Smart Horizon Capital Advisors Private Limited at www.shcapl.com. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with BSE SME, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to BSE and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by BSE and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with BSE.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the Bidders is invited to **"Risk Factors"** beginning on page 35 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of Bombay Stock Exchange of India Limited.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, please see "History and Certain Corporate Matters" on page 256 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see **"Capital Structure"** on page 110 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>SMART HORIZON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED</b> (Formerly Known as Shreni Capital Advisors Private Limited) B/908, Western Edge II, Kanakia Space, Behind Metro Mall, off Western Express Highway, Magathane, Borivali East, Mumbai – 400066, Maharashtra, India. <b>Tel No:</b> 022-28706822 <b>Investors Directorate e-mail:</b> investor@shcapl.com <b>Email:</b> director@shcapl.com <b>Website:</b> www.shcapl.com <b>Contact Person:</b> Mr. Parth Shah <b>SEBI Registration Number:</b> INM000013183	 <b>KFIN TECHNOLOGIES LIMITED</b> 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai – 400070, Maharashtra, India. <b>Tel No:</b> + 91-40-67162222 <b>Email:</b> bharatrohan ipo@kfintech.com <b>Website:</b> www.kfintech.com <b>Investor Grievance Email Id:</b> einward.ris@kfintech.com <b>Contact Person:</b> M. Murali Krishna <b>SEBI Registration Number:</b> INR000000221 <b>CIN:</b> L72400MH2017PLC444072	<b>Ms. AAKANSHA SINGH</b> Company Secretary and Compliance Officer <b>Registered Office:</b> Fourth Floor B-117, DDA Sheds Okhla Industrial Area Phase I, South Delhi, New Delhi-110020, India. <b>Tel. No.:</b> + 91 9266109913 <b>Email:</b> investors@bharatrohan.in <b>Website:</b> https://bharatrohan.in/  Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Managers or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non- receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For BharatRohan Airborne Innovations Limited

Sd/-

Mr. Amandeep Panwar  
Chairman & Managing Director  
DIN: 07483508

Place: Delhi

Date: July 26, 2025

**BharatRohan Airborne Innovations Limited** is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with BSE SME on July 24, 2025. The DRHP shall be available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and is available on the websites of the BRLMs, i.e. Smart Horizon Capital Advisors Private Limited at www.shcapl.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled 'Risk Factors' on page 35 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with Stock Exchange for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where those Issue and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

AdBaaz

affle  
Affle 3i Limited

(formerly known as Affle (India) Limited)

Registered Office | A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016  
(P) 0124-4598749 (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, CIN: L65990DL1994PLC408172

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Amount in INR million, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total income	6,379.10	6,211.61	5,446.20	23,600.73
Profit before exceptional items and tax	1,291.95	1,238.50	1,065.53	4,676.37
Net profit for the periods / year	1,055.00	1,030.65	865.90	3,818.69
Total comprehensive income for the periods / year	1,088.05	1,063.42	948.58	4,143.87
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	280.86	280.71	280.28	280.71
Other equity for the year	-	-	-	29,183.86
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	7.52	7.35	6.18	27.23
Diluted:	7.50	7.34	6.17	27.19

Notes :

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 26, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.

2. Key standalone financial information:

Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total income	2,143.46	2,041.52	1,776.32	7,770.28
Net profit for the periods / year	297.00	308.35	281.68	1,154.94
Total comprehensive income for the periods / year	295.55	307.42	281.13	1,153.23

3. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

The full format of the quarterly financial results are available on the websites of stock exchange, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of the Company i.e. [www.affle.com](http://www.affle.com). Scan the QR code below to view the results on the website of the Company.



By Order of the Board  
For Affle 3i Limited (formerly known as Affle (India) Limited)  
Sd/-  
Anuj Khanna Sohum  
Chairperson, Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Gurugram  
Date : July 26, 2025



SBFC Finance Limited

CIN : L67190MH2008PLC178270

[Regulation 47(1) and Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Extract of Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

(₹ in Million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		Jun 30, 2025	Mar 31, 2025	Jun 30, 2024	Mar 31, 2025
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	3,884.36	3,605.73	2,974.95	13,051.16
2	Net profit for the period				
	(before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	1,357.11	1,257.95	1,051.23	4,585.16
3	Net profit for the period before tax				
	(after exceptional and/or extraordinary items)	1,357.11	1,257.95	1,051.23	4,585.16
4	Net profit for the period after tax				
	(after exceptional and/or extraordinary items)	1,008.92	943.95	787.15	3,451.68
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	977.58	929.53	765.80	3,397.76
6	Paid up equity share capital (Face value of ₹ 10/- each)	10,881.11	10,851.84	10,725.15	10,851.84
7	Reserve (excluding revaluation reserves)	-	21,049.47	-	21,049.47
8	Securities premium account	-	11,165.20	-	11,165.20
9	Net worth	32,992.83	31,901.31	28,641.12	31,901.31
10	Paid up debt capital/ outstanding debt	57,229.45	52,643.18	40,576.00	52,643.18
11	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-
12	Debt equity ratio	1.73	1.65	1.42	1.65
13	Earnings Per share (of ₹ 10/- each)(for continuing and discontinued operations):-				
	(a) Basic (not annualized)	0.93	0.87	0.73	3.20
	(b) Diluted (not annualized)	0.91	0.86	0.72	3.15
14	Capital redemption reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture redemption reserve	NA	NA	NA	NA
16	Debt service coverage ratio	NA	NA	NA	NA
17	Interest service coverage ratio	NA	NA	NA	NA
18	Total debts to total assets ratio	0.63	0.61	0.58	0.61
19	Net profit margin	25.97%	26.14%	26.46%	26.43%

Notes:

- The above is an extract of the detailed format financial results for the quarter ended June 30, 2025, filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the said "Financial Results" are available on the website of Stock Exchanges "www.bseindia.com", "www.nseindia.com" and on the Company's website viz. "www.sbfc.com". The said financial results have been reviewed by the Audit Committee, subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on July 26, 2025 and subjected to limited review by the Statutory Auditors.
- The pertinent disclosure have been made to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited as per Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and can be accessed on "www.bseindia.com" and "www.nseindia.com".



For and on behalf of the Board of Directors of  
SBFC Finance Limited  
sd/-  
Aseem Dhru  
Managing Director & CEO  
DIN: 01761455

Date : July 26, 2025  
Place : Mumbai

Regd. Office: 103, 1st Floor, C&B Square, Sangam Complex, Andheri Kurla Road,  
Village Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400059  
Telephone No.: 022-67875300 Website: [www.sbfc.com](http://www.sbfc.com) Email: [complianceofficer@sbfc.com](mailto:complianceofficer@sbfc.com)



THE LATEST  
TRENDS  
IN BUSINESS

THE LATEST  
TRENDS IN  
TRENDS

FINANCIAL EXPRESS  
Read to Lead

New Delhi



**E. Allotment to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (After Technical Rejection):**  
Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹ 120 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 92.90 time of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 11,07,600 Equity Shares, which were allotted to 51 successful Applicants.

The Equity Shares offered in the issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-एनआईटी)			
निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, संसाधन-संपन्न और अनुभवी पक्षों से दो भाग प्रणाली में ऑनलाइन एकल प्रतिशत दर बोलीयां/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:			
क्र.सं.	कार्य का विवरण तथा ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-एनआईटी) सं.	वेबसाइट के साथ साथ सीपीपी पोर्टल में प्रकाशन की तिथि	बोली प्रस्तुतिकरण हेतु आतिथ्य तिथि (ऑनलाइन)
1.	महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग निदेशालय के तहत "महाराष्ट्र के यवतमाल में वी एन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में ईडब्ल्यूएस योजना के तहत 176 छात्र लड़कों के छात्रावास, 160 छात्र लड़कियों के छात्रावास, 3 परीक्षा हॉल, स्टूडिंग रूम, कोशल प्रयोगशाला और केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भवन का निर्माण"।  [B AND R / HO / DMER / 51273 / MAHARASHTRA / YAVATMAL /NIT/CW/01]	28.07.2025	19.08.2025
2.	"महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय के तहत महाराष्ट्र में जीएसपी मिराज के परिसर में ईडब्ल्यूएस योजना के तहत 150 क्षमता वाले लड़कों के छात्रावास, 150 क्षमता वाले लड़कियों के छात्रावास, लेक्चर थियेटर और प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं का निर्माण।"  [B AND R / HO / DMER / 51275 / MAHARASHTRA / MIRAJ /NIT/CW/01]	28.07.2025	18.08.2025

मनुष्यो ॥ - दुर्गना संघर्ष की अनुसूची: संघर्ष । औद्योगिक धूम का समस्त भाग, प्लांट संख्या सी-18, कुल क्षेत्रफल 440.00 वर्ग मीटर, प्लांट संख्या सी-17/खाली जमीन, पश्चिम में प्लांट संख्या सी-17/खाली भूमि, उत्तर में 24 मीटर चौड़ी सड़क और दक्षिण में नाला, जो औद्योगिक एरेंट, ग्रास स्ट्रेट, सिगडो, कोटडार में स्थित है । उपरोक्त संघर्ष की सीमा:- पूर्व की ओर - प्लांट संख्या सी-17, पश्चिम की ओर - प्लांट संख्या सी-17/खाली जमीन, उत्तर दिशा में - 24 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण दिशा में - नाला  
संपत्ति 23 आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, पूर्व में 30 फीट, पश्चिम में 30 फीट, उत्तर में 70 फीट और दक्षिण में 70 फीट जमीन है, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट यानी 196 वर्ग मीटर (233.33 वर्ग गज) है । वर्तमान में मौके पर आवासीय भवन बना हुआ है, जो पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम में नीलम अग्रवाल की जमीन, उत्तर में विक्रेता की जमीन और दक्षिण में विक्रेता की जमीन से सीमाबद्ध है । यह खसरा संख्या 35/1 से संबंधित है । यह गाँव अलावलपुर परगना और तहसील धामपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में स्थित है । उपरोक्त संपत्ति की सीमा:- पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम में नीलम अग्रवाल की जमीन, उत्तर में विक्रेता की जमीन, दक्षिण में विक्रेता की जमीन

“आगे यथा के साथ, कुछ आधिकारिक भूगोचराना में उल्लिखित जमीन में विशेष रूप से उत्प्रेक्षित धरत पर अतिरिक्त खान, भूगर्भ और यातायात वस्तुओं की तारीख तक किए गए संशोधन कार्य, नाला, शुष्क अक्षादि । यदि उक्त दायित्वधारिता ईश्वरफल को प्रयुक्त करने में भूतान करता में स्थित करता है, तो ईश्वरफल दायित्वधारिता(यों)।विधिक उत्तराधिकारिता(यों)।विधिक प्रतिनिधित्व(यों) के पूर्ण लागत एवं परिणाम के जोडिधम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नाला नियमों के तहत उत्तराधिकार प्रतियुक्त संपत्ति(यों)।चल संपत्ति(यों) के ईश्वरद को कार्यावली तथा उक्त अधिनियम के तहत उक्त दायित्वधारिता(यों)।विधिक उत्तराधिकारिता(यों)।विधिक प्रतिनिधित्व(यों) को उक्त प्रतियुक्त संपत्ति/चल संपत्ति(यों) की किंवा ईश्वरफल को पूर्ण लिखित समर्पित के निष्का के माध्यम से, पट्टे पर या अन्यथा विधि से हस्तांतरित करने के लिए निष्पत्ति निष्पा जाता है । कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा ।

हस्ता./-

स्थान :- 28.07.2025

स्थान :- बिजनौर (उ.प्र.)

अधिकृत अधिकारी

कृते इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस प्रोसेसिंग

## इंटेक कैपिटल लिमिटेड

708, मंजूषा बिल्डिंग, 59 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

### ई-नीलामी बिक्री सूचना

[प्रतिभूति हित प्रतिनिधिम 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत]

वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेस अधिनियम, 2002) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

प्रामाणिक अधिकारी द्वारा सर्वेक्षणण को तथा विवेक रूप से कब्जा (सी) तथा ऋण-कर्जदारों और विवेक रूप से गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संबंधित इंटेक कैपिटल लिमिटेड के पास निम्नी है। कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ने विवेक आसित्व का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत किया है निम्न है। नीचे उल्लिखित बिक्री नीति और अतिरिक्त बिक्री को बतानी के लिए संबंधी को नीचे उल्लिखित निविदा सह संबंधित ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। मुद्रक और लागत अति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संपत्ति "बैसी है जहाँ है" और "जहाँ है यहाँ है" (स्थिति में बेची जाएगी।)

क्र. सं.	कर्जदार तथा गारंटर का नाम	बैंकक संपत्ति का विवरण	1. आसित्व मूल्य, 2. जमा धनशेष राशि (ईएमडी) / 3. बोली वृद्धि राशि	कच्चे का प्रकार
1.	शायमई एंफाटरक, राजेज सहदेव एवं मोनु सहदेव	सम्पत्ति सं. 26-वीं, भूतल, छत के अधिकार रहित, ग्राम खुर्ची खास, जे एल के ब्लाक, लखमी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092	1. 29,94,400/- 2. 29,94,400/- 3. 25,00,00/-	भौतिक
2.	शायमई एंफाटरक, राजेज सहदेव एवं मोनु सहदेव	सम्पत्ति सं. 26-वीं, भूतल, छत के अधिकार रहित, ग्राम खुर्ची खास, जे एल के ब्लाक, लखमी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092	1. 22,06,400/- 2. 22,06,400/- 3. 25,00,00/-	भौतिक
3.	शायमई एंफाटरक, राजेज सहदेव एवं मोनु सहदेव	सम्पत्ति सं. 26-वीं, भूतल, छत के अधिकार रहित, ग्राम खुर्ची खास, जे एल के ब्लाक, लखमी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092	1. 20,02,500/- 2. 20,02,500/- 3. 25,00,00/-	भौतिक

**निगम निधि और समय:** 11-08-2025 से 16-08-2025 तक सभी संबंधितों के लिए, सुवाह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच, श्री प्रताप सिंह चिट से 9582555712 पर सुवाह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच संबंधितों के लिए।

**ई-नीलामी की तिथि और समय:** 29-08-2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच

**ईएमडी जमा करने की तिथि और समय:** 28-08-2025 को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक, भागीदारी अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण dinesh.negi@intecapital.com, nodalofficer.north@intecapital.com, संपर्क संख्या: 011-46522315 पर भेजें। इच्छुक प्रेक्षताओं/बोलीदाताओं को केवल इंटेक कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करनी होगी।

**ई-नीलामी के नियम और शर्तें**


1. श्री निवेशक कुमार - 7080804466, mithalehs.kumar@cindia.com और delhi@cindia.com से उनको वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> पर अगर दी गई जानकारी में संश्लिष्ट तिथि पर 5 मिनट के अंतर्गत निविदा के साथ संबंध करें। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलीपत्र जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें जांच लें, लिंक <https://www.bankauctions.com> देखें।

2. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और नीलामी मोडल नंबर से सी.ई.डी.आर. से ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना होगा। ई.सी.डी.आर. के लिए अनिवार्य है।

3. वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दर्तावेज के साथ उपर्युक्त निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने नीलामी प्रक्रिया में अंतर्गताई ई-नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है।

हस्ता. /  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंटेक कैपिटल लिमिटेड

दिनांक : 28-07-2025  
स्थान: दिल्ली

<div style="text-align: center;">  <h1 style="margin: 0;">Affle 3i Limited</h1> <p style="margin: 0;">(formerly known as Affle (India) Limited)</p> </div>				
Registered Office   A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi - 110016 (P) 0124-4598749 (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, CIN: L65990DL1994PLC408172				
<div style="text-align: center;"> <b>EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025</b>  (Amount in INR million, unless otherwise stated) </div>				
Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total income	6,379.10	6,211.61	5,446.20	23,600.73
Profit before exceptional items and tax	1,291.95	1,238.50	1,065.53	4,676.37
Net profit for the periods / year	1,055.00	1,030.65	865.90	3,818.69
Total comprehensive income for the periods / year	1,088.05	1,063.42	948.58	4,143.87
Paid-up equity share capital (face value INR 2/- per equity share)	280.86	280.71	280.28	280.71
Other equity for the year	-	-	-	29,183.86
Earnings per equity share (face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	7.52	7.35	6.18	27.23
Diluted:	7.50	7.34	6.17	27.19


**Notes :**

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 26, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- Key standalone financial information:**

Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total income	2,143.46	2,041.52	1,776.32	7,770.28
Net profit for the periods / year	297.00	308.35	281.68	1,154.94
Total comprehensive income for the periods / year	295.55	307.42	281.13	1,153.23

- The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

The full format of the quarterly financial results are available on the websites of stock exchange, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of the Company i.e. [www.affle.com](http://www.affle.com). Scan the QR code below to view the results on the website of the Company.



**By Order of the Board**

**For Affle 3i Limited** (formerly known as Affle (India) Limited)

**Sd/-**

**Anuj Khanna Sohum**  
Chairperson, Managing Director & Chief Executive Officer